

## परियोजना आधारित (अस्थायी) रिक्तियाँ

मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद बिहार के विभिन्न जिलों में निम्न परियोजना आधारित अस्थायी पदों के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित करता है।

1. मास्टर ट्रेनर्स (Master Trainers) (36) @INR 12000 / - प्रति माह
  2. सुगमकर्ता (Facilitators) (12) @INR 15000 / - प्रति माह
  3. प्रशासकीय एवं वित्त समन्वयक (Admin and Finance Coordinator) (1) @ INR 35000 प्रति माह
- सीवी जमा करने की अंतिम तिथि: 22 अक्टूबर 2020 को 17:00 बजे तक

**परियोजना के संबंध में:** संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) ने बिहार के मदरसों में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम Adolescence Education Program (AEP) परियोजना में मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के साथ सहयोग किया है। AEP का उद्देश्य किशोरों में आजीवन अधिगम को बढ़ाना एवं शक्ति प्रदान करना है। MANUU मदरसों में शिक्षकों की क्षमता को शक्ति प्रदान करने के लिए नोडल शिक्षकों के नियमित प्रशिक्षण और 40 मदरसों की एक इकाई में क्षेत्रीय संसाधन केंद्रों को विकसित करेगा। 40 मदरसों के एक क्लस्टर के लिए एक क्षेत्रीय संसाधन केंद्र प्रशिक्षण, रिक्रेश और सहायक पर्यवेक्षण प्रदान करने के लिए कार्य करेगा। प्रत्येक आरआरसी में 3 मास्टर ट्रेनर और 1 सुगमकर्ता होंगे।

मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय इस प्रयास में एक महत्वपूर्ण भागीदार है जिसका प्रयास नोडल शिक्षक का प्रशिक्षण, सहायक पर्यवेक्षण और क्षेत्रीय संसाधन केंद्र को स्थापित करना, उसका क्रियाकलाप एवं प्रबंधन करना है।

संबंधित आरआरसी क्षेत्रों में मास्टर ट्रेनर और सुगमकर्ता की जरूरत है (कृपया आरआरसी की सूची देखें और अपने सीवी / आवेदन जिस आरआरसी स्थान में आप रुचि रखते हैं का उल्लेख करें)।

प्रशासकीय और वित्त समन्वयक (Admin and Finance Coordinator) मुख्य रूप से सीटीई, दरभंगा में पदस्थ होंगे।

आवेदन कैसे करें:

शैक्षिक योग्यता और अनुभव के विवरण के साथ एक सीवी निम्नलिखित ईमेल आईडी पर ईमेल किया जाना

चाहिए: [faiz@manuu.edu.in](mailto:faiz@manuu.edu.in)

आगे के विवरण के लिए कृपया प्रो. मो. फैज अहमद, परियोजना समन्वयक / प्राचार्य, सीटीई, दरभंगा

(9934820647) से संपर्क करें।

साक्षात्कार के लिए चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार की तिथि एवं स्थान की सूचना दी जाएगी।

प्रो. मो. शाहिद  
परियोजना निदेशक  
यू.एन.एफ.पी.ए. मानू (AEP) परियोजना  
MANUU हैदराबाद

नोट: पदों, योग्यता और अपेक्षित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है। अंत में आरआरसी स्थान के साथ सूची दी गई है।

## 1- मास्टर ट्रेनर (क्षेत्रीय संसाधन केंद्र)

### आवश्यक योग्यता:

- किसी भी विषय में स्नातक
- समान प्रकृति की परियोजनाओं के अनुभव वाले लोगों को वरीयता दी जाएगी / जिनके पास B.Ed / M.Ed / MSW / मदरसा पृष्ठभूमि हो
- उन्हें परियोजना क्षेत्र का निवासी होना चाहिए (नीचे दी गई सूची देखें)
- उन्हें उर्दू का अच्छा ज्ञान होना चाहिए

### भूमिकाएं और जिम्मेदारियाँ:

- मास्टर ट्रेनर, नोडल शिक्षक को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और AEP क्रियान्वयन एवं सहायक पर्यवेक्षण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा
- टीम के सदस्यों, मदरसा स्टाफ, हेड मास्टर, प्रबंधन समिति के सदस्यों, छात्रों-शिक्षकों अभिभावकों और सिविल सोसाइटी के साथ अच्छा समन्वय विकसित करना
- समय सीमा के भीतर गुणवत्ता रिपोर्ट जमा करना सुनिश्चित करना
- नोडल शिक्षक (NT) प्रशिक्षण और अन्य सामुदायिक गतिविधियों का योजना बनाना और आयोजन क्षमता का प्रदर्शन
- आवंटित मदरसों में NT की कार्य योजना बनाना और AEP कृयान्वयन सुनिश्चित करना (आरआरसी प्रशिक्षकों के लिए औसत 10)
- पर्यवेक्षक को AEP की कृयान्वयन एवं दिन-प्रतिदिन के कार्य से अवगत कराना।
- गतिविधियों का अनुमानित साप्ताहिक / द्वि-साप्ताहिक कार्य योजना प्रस्तुत करना।
- मदरसा प्रमुख, आरआरसी, एपीसी और पीसी द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेना।
- पर्यवेक्षक द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य

## 2- सुगमकर्ता (Facilitator) (क्षेत्रीय संसाधन केंद्र)

### आवश्यक योग्यता:

- किसी भी विषय में स्नातक
- समान प्रकृति की परियोजनाओं के अनुभव वाले लोगों को वरीयता दी जाएगी / जिनके पास B.Ed / M.Ed / MSW / मदरसा पृष्ठभूमि हो
- उन्हें परियोजना क्षेत्र का निवासी होना चाहिए (नीचे दी गई सूची देखें)
- उन्हें उर्दू का अच्छा ज्ञान होना चाहिए

### भूमिकाएं और जिम्मेदारियाँ:

- एपीसी और पीओ (टीएफ) और AEP सेल के क्षेत्रीय संसाधन समन्वयक के सहयोग से आरआरसी में सुचारू कामकाज और गतिविधियों को सुनिश्चित करना
- मास्टर ट्रेनरों के सभी कार्यकलाप के साथ-साथ सुगमकर्ता आरआरसी को नेतृत्व प्रदान करेगा
- एईपी क्रियान्वयन व सहायक पर्यवेक्षण के साथ क्षेत्रीय संसाधन केंद्र (आरआरसी) द्वारा सौंपे गए / संचालित किए गए पूरे कार्यों के लिए जिम्मेदार
- एनटी प्रशिक्षण, पर्यवेक्षी यात्रा और आरआरसी प्रबंधन की योजना और आयोजन
- टीम के सदस्यों, मदरसा स्टाफ, हेड मास्टर, प्रबंधन समिति के सदस्यों, छात्रों-शिक्षकों अभिभावकों और सिविल सोसाइटी के साथ अच्छा समन्वय विकसित करना
- एईपी क्रियान्वयन के आयोजन और संचालन की योजना बनाने में एनटी को सहायता प्रदान करना
- निर्धारित प्रारूप में समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- आरसी पर उपलब्ध संसाधनों के उपयोग में जवाबदेही और पारदर्शिता
- APC और PO (TF) के सहयोग से NT प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियों के लिए किए गए सभी वित्तीय अग्रिमों और व्यय के लिए जिम्मेदार
- गतिविधियों का अनुमानित साप्ताहिक / द्वि-साप्ताहिक कार्य योजना प्रस्तुत करना।
- आवंटित मदरसों में NT की कार्य योजना बनाना और AEP कृयान्वयन सुनिश्चित करना (आरआरसी प्रशिक्षकों के लिए औसत 10)
- मदरसा प्रमुख, एपीसी और पीसी द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेना।
- पर्यवेक्षक द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य

### 3-प्रशासकीय और वित्त समन्वयक (Admin and Finance Coordinator) (1) सीटीई दरभंगा में स्थित है

आवश्यकता योग्यता: B.com / M.Com / MBA / MSW / PG / समकक्ष और समान प्रकृति की परियोजनाओं में प्रशासकीय और वित्त का कार्य अनुभव / अच्छी तरह से कंप्यूटर और टैली जैसे कार्यक्रमों में निपुण।

- पीसी और पीडी की प्रत्यक्ष देखरेख में परियोजना के बजट और वित्तीय लेनदेन को बनाए रखने और निगरानी के लिए तकनीकी सहायता
- वित्त और परियोजना गतिविधियों के लिए समय और लक्ष्य विकसित करना जिसमें अग्रिमों का आहरण और व्यय का निपटान शामिल है
- सुनिश्चित करें कि सभी परियोजना गतिविधियों में व्यय GFR और प्रोजेक्ट नॉर्मर्स के अनुसार हो
- GFR / GST / अन्य सहित व्यय के मद वार मानदंडों पर प्रोजेक्ट टीम को प्रशिक्षित करना
- RRC टीमों की सुविधा के लिए क्षेत्र में अच्छे वित्तीय मानदंड रखने और सभी संबंधितों को एक ही अद्यतन करने के लिए क्षेत्र की निगरानी और आकस्मिक दौरें करें
- बिलों की जांच और व्यय के निपटान के लिए जांच सूची विकसित करना

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी  
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY

(A Central University established by an Act of Parliament in 1998)

Gachibowli, Hyderabad – 500 032)

(Accredited “A” Grade by NAAC)



- प्रसंस्करण और निपटान के लिए बिलों की जांच और व्यय
- सुपरवाइजर द्वारा आवंटित किया गया कोई अन्य कार्य

क्षेत्रीय संसाधन केंद्रों (आरआरसी) की सूची और परियोजना क्षेत्र

क्र.सं.	RRC स्थान (अन्तरिम)	शामिल किए गए जिले	RRCs की संख्या	सुगमकर्ताओं की संख्या	मास्टर ट्रेनेर्स की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	मोतीहारी	पूर्वी चंपारण	2	2	6
2.	बेतिया	पश्चिमी चंपारण	2	2	6
3.	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर/वैशाली	1	1	3
4.	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी/शिवहर	2	2	6
5.	सीवान	छपरा/सीवान/गोपालगंज	1	1	3
6.	गया	गया/नवादा/रोहतास/सासाराम औरंगाबाद	1	1	3
7.	नालंदा (बिहार शरीफ)	नालंदा (बिहार शरीफ)पटना /बक्सर/भोजपुर/आरा	1	1	3
8.	भागलपुर	बांका/भागलपुर	1	1	3
9.	बेगूसराय	खगरिया/मुंगेर/जमुई/शेखपुरा/लखीसराय /बेगूसराय	1	1	3
			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>36</b>

प्रो. मो. शाहिद  
परियोजना निदेशक  
यू.एन.एफ.पी.ए. मानू (AEP) परियोजना  
MANUU हैदराबाद